# SADHNA BROADCAST LIMITED [Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited]

CIN: L92100DL1994PLC059093

Date: 13/11/2020

To,

Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001 Metropolitian Stock Exchange Of India Limited Vibgyor Towers, 4<sup>th</sup> Floor, Plot No. C 62, G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400098, India

Sub: Newspaper Advertisement under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the clippings of the English newspaper **"Financial Express**" and Hindi Newspaper **"Jansatta**" dated 13<sup>th</sup> November, 2020in which Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2020 has been published.

This is for your kind information and record please.

Thanking You.

For Sadhna Broadcast Limited

Name: Tajinder Kaur DIN: 06799570 Designation: Managing Director Address: 24/27 Front Side, West Patel Nagar Delhi -110008

Registered Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi- 110055 Email ID: <u>cbnl.delhi@gmail.com</u>, Website:<u>www.sadhnabroadcast.com</u> Phone: 91-11-23552627, Fax No.: 91-11-23524610 FINANCIAL EXPRESS

# 27

	B J DUPLEX BOARD Regd. Office: H. NO. 83, T/F CHAWRI Landline: (91)-11-41410139 CIN: L21 Extract of Unaudited Standalone Financial Res and Half Year Ended Septemb	BAZAR, DE 090DL 1995 aults for the Sec er 30, 2020	LHI -110006 PLC066281 cond Quarter	) (In Lakhs)
81	Particulars	Qua	Half Year Ended	
SL No.		30" September, 2020	30 <sup>th</sup> September, 2019	30" Septembe 2020
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1	Total Income from operations	0	0.00	0.05
2	Net Profit/(Loss)for the period (before tax, Exceptional items)	0.05	(1.86)	(4.35)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(0.79)	(1.86)	(1.43)
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	(0.79)	(1.86)	(1.43)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/[Loss] for the period (after tax) and	(0.79)	(1.86)	(1,43)

2	Net Profit/(Loss)for the period (before tax, Exceptional items)	0.05	(1.86)	(4.35)
	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(0.79)	(1.86)	(1.43)
Ŀ	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	(0.79)	(1.86)	(1.43)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	(0.79)	(1.86)	(1,43)
3	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	37.66	37.66	37.66
	Reserves(excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous Year	0	0	0
1	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (a) Basic (b) Diluted	(0.02)	(0.03)	(0.03)

6.

**Divya Mittal** 

**Compliance Officer** 

### Note :

Place : Delhi

SI. No

PARTICULARS

2 Date of incorporation of corporate

3 Authority under which corporate

6 Date of closure of insolvency

**Resolution Process** 

corporate debtor

liquidator

debtor is incorporated/ registered

liability identity number of corporate

insolvency professional acting as

as registered with the Board

10 Address and e-mail to be used for

(Order received on 10th November, 2020).

Date: 13th November, 2020

Place: New Delhi

correspondence with the liquidator

4 Corporate identity number / limited U27109DL2004PLC130509

Liquidation commencement date of 9th November, 2020

8 Name and registration number of the Mr. Anshul Gupta

11 Last date for submission of claims 9th December, 2020

Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

5 Address of the registered office and 24/1A, Mohan Cooperative Industrial Estate.

principal office (if any) of corporate Mathura Road, South Delhi-110044, Delhi, India

9th November, 2020

Registration No:

9 Address and e-mail of the liquidator, Address: Flat No. 1501, Tower No.4, Spring Grove

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal New Delhi Bench III has ordered the commencement of liquidation of the RGTL Industries Limited on 9th November, 2020

The stakeholders of RGTL Industries Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 9th December, 2020, to the liquidator at the address mentioned against item No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.

**NOVA IRON & STEEL LTD** 

1 Name of Corporate Debtor

debtor

debtor

debtor

 The above is an extract of the detailed format of standalone Unaudited Financial Results for the second guarter and half year ended on September 30, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015. The full format of the unaudited Financial Results for the second quarter and half year ended on September 30, 2020 is available on the Stock Exchange website viz. www.bseindia.com and on Company's website viz www.bjduplexboard.com

The above un-audited financial results for the second guarter and half year ended on September 30, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors in its meeting held on 12th November, 2020 For B J DUPLEX BOARDS LIMITED

Date : 12" November, 2020

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF **RGTL INDUSTRIES LIMITED** PARTICULARS SI. No DETAILS 1 Name of Corporate Debtor **RGTL Industries Limited** 2 Date of incorporation of corporate 10th November, 2004 dehtor Authority under which corporate Registrar of Companies- New Delhi debtor is incorporated/ registered 4 Corporate identity number / limited U27109DL2004PLC130509 liability identity number of corporate 5 Address of the registered office and 24/1A, Mohan Cooperative Industrial Estate. principal office (if any) of corporate Mathura Road, South Delhi-110044, Delhi, India Date of closure of insolvency 9th November, 2020 Resolution Process Liquidation commencement date of 9th November, 2020

FORM B **PUBLIC ANNOUNCEMENT** (Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF **RGTL INDUSTRIES LIMITED** 

DETAILS

RGTL Industries Limited

Registrar of Companies- New Delhi

(Order received on 10th November, 2020)

IBBI/IPA-002/IP-N00310/2017-2018/10899

Mumbai-400101, Maharashtra, India. Email ID: contactanshulgupta@gmail.com

Vihar-110076, New Delhi, India Email ID: rgtl.liquidation@gmail.com

Address: B-573, II Floor, Pocket B, Sarita

Towers, Lokhandwala Township, Kandivali East,

Anshul Gupta

Liquidator for RGTL indistries Limited

Reg No. IBBI/IPA-002/IP-N00310/2017-2018/10899

10th November, 2004



## POSSESSION NOTICE [(Appendix IV) Rule 8(1)]

Whereas the Authorized officer of Hero FinCorp Limited (HFCL), a Non-Banking Financial Company, under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 0F 2002) (hereinafter referred to as "Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice dated 10.07.2020, calling upon:

- 1. M/s World Window Impex India (P) (Borrower/ Addressee No. 1) Through its Directors, Having its Registered Office at: 75, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi-110017
- Mr. Piyoosh Goyal (Director/ Guarantor/ Addressee No. 2)
- S/o Mr. Mahesh Kumar Goyal, Residing at: W-7A/12, Sainik Farms, New Delhi -110062
- Mr. Naveen Agrawal (Director/Addressee No. 3) Residing at: B-12B, first floor kalkaji, New Delhi - 110019
- Mr. Anil Kumar Misra (Director & CFO/ Addressee No. 4) Residing at: H. No. 227, Pocket C, SFS Flats Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi-110017
- Mr. Ramesh Kumar (Director/ Addressee No. 5) Residing at: C-502, Jal Vayu Vihar, Nr S M Shetty School, Powai, Mumbai-400076
  - Mr. Sunil Kumar(Director/ Addressee No. 6) Residing at 504, DEV 20 appartment azad society, Ahmadabad city Ahmedabad-380015
- Mr. Sandeep Soni (Director/ Addressee No. 7) Residing at: 315, BHA Millennium Apartment, B 9/17 Sector-62, Nodia Gautam Buddha Nagar NODIA. -201301 Uttar Pradesh
- Mr. Vijay Makhija (Director/ Addressee No. 8) Residing at: 75, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi-110017, Also at : A-40, Duggal Colony Devli Road, Khanpur, New Delhi-110062
- M/s Vedansh Builders Pvt. Ltd. (Guarantor/ Mortgagor/ Addressee No. 9) Through its Director, Mr. Sandeep Soni, Having its office at: 75, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi-110017
- 10. M/s Vedansh Developers Pvt. Ltd. (Guarantor/ Mortgagor/ Addressee No.10) Through its Director, Mr. Sanjeeb Kumar Mishra Having its office at: 75, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi-110017, Also at: A-1931, Greenfield Colony, Faridabad-121003 (Haryana)
- M/s Worlds Window Exim Pvt. Ltd. (Guarantor/ Mortgagor/ Addressee No. Through its Director, Mr. Rumil Kumar, Having its office at: 75, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi-110017

to repay the amount mentioned in the notice Rs. 4,77,59,276.63 (Rupees Four Crore Seventy Seven Lacs Fifty Nine Thousand Two Hundred Seventy Six Paise Sixty Three) as on 26.06.2019 along with the applicable interest and other charges within Sixty (60) days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under subsection (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 08th day of November, 2020.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of HFCL for an amount of Rs. 4,77,59,276.63 (Rupees Four Crore Seventy Seven Lacs Fifty Nine Thousand Two Hundred Seventy Six Paise Sixty Three) as on 26.06.2019 along with the applicable interest and other charges.

1	7						
	CIN: L9 egd. Off.: 37th Second Floor, Rani Email ID: cbnl.delhi@gmail. Statement of Un-audited f	com Website: w	959093 otia Khan, Paha ww.sadhnabro	irganj adcas	, Delhi-110055 t.com 020		SHARPI (Former Regd. Off.: 37 Second
	art I articulars	Quarter ended (30/09/2020)	Half year ending (30/09/2020)	3 m	(In Lakhs) Corresponding onths ended in previous year	Pa	
102		1300200		12.23	(30/09/2019)	Pa	rticulars
	efer Notes Below) Total Income from Operations	(Unaudited) 571.42	(Unaudited) 824.55		(Unaudited) 827.83		
	Net Profit/(Loss) for the period	0/1,42	024.00		021.03		
	(before Tax, Exceptional and/or	397.5233			110.070.00		efer Notes Below)
	Extraordinary items*)	76.12	(101.69)		46,30		Total Income from O Net Profit/(Loss) for the
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional						(before Tax, Exception
	and/or Extraordinary items*)	76.12	(101.69)		46.30		Extraordinary items*)
4.	Net Profit/(Loss) for the period				1000		Net Profit/(Loss) for the
	after tax(after Exceptional	76.12	(101.69)		34.26		tax(after Exceptional a Extraordinary items")
	and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income	76,12	[101.68]		34.20		Net Profit/(Loss) for t
2.10000	for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income		1			5.	tax(after Exceptional Extraordinary items) Total Comprehensive period [Comprising P
18	(after tax)]	76.12	(101.69)		34.26		the period (after tax)
6.	Equity Share Capital	1,002.65	1,002.65		1,002.65		Comprehensive Incom
Constraint of	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic :	0.76	(1.01)		0.34	7.	Equity Share Capital Earning Per Share (of (for continuing and dis operations)
	2. Diluted :	0.76	(1:01)		0.34		1. Basic :
2	Exchange under Regulation 33 of Regulations, 2015. The full format websites of the Stock Exchange(s) The impact on net profit/loss, total or due to changes in accounting polici # Exceptional and/or Extraordinary	of the Quarterly F and the listed enti- omprehensive inco- les shall be disclosed ritems adjusted in	Financial Result ly me or any other sed by means or n the Statement	s are releva f footr	available on the nt financial items ote.	1	The above is an extr Stock Exchange unde Regulations, 2015. 1 websites of the Stoc The impact on net pro due to changes in at
Da	accordance with Ind-AS Rules/AS F		For SADHNA B	lame h: Mai	CAST LIMITED Sd/- : Tajinder Kaur naging Director DIN : 06799570	3 Da	# Exceptional and/or accordance with Ind- ite : 11.11.2020
,ŝ	egistered Office: 37, Second Floor, Rar Email ID: cbnl.delhi@gmail.	Chirau Broadcas 2100DL1994PLC0 ni Jhansi Road, Mo com, Website: w	t Network Limi 159093) tia Khan, Paharç ww.sadhnabro	ted) janj, D adcas	TED elhi-110055.		SHARP (Formel Regd. Off.: 37 S
Statement of Assets and Liabilities as at 30.09.2020 Standalone/Consolidated Statement of Assets and Liabilities				s at	As at 31-03-2020		Ema
			30-09-2 Unaud		Audited		atement of Assets an andalone/Consolidated 5
Pa	rticulars		30-09-2		Audited		atement of Assets an andalone/Consolidated \$
	EQUITY AND LIABILITIES Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and surplus	vorronte	30-09-2 Unaud 1.002	ited	1,002.65 432.11	St	andalone/Consolidated \$ articulars EQUITY AND LIABIL Shareholder's Funds
Pa A.	EQUITY AND LIABILITIES Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and surplus (c) Money received against share w	rarrants	30-09-2 Unaud 1,002 330	ited 2.65 1.39	1,002.65 432.11	St Pa A.	andalone/Consolidated \$ articulars EQUITY AND LIABIL Shareholder's Funds (a) Share capital
Pa A. 1.	EQUITY AND LIABILITIES Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and surplus (c) Money received against share w Sub-total-shareholder's funds Share applications money pendi		30-09-2 Unaud 1.002	ited 2.65 1.39	1,002.65	St Pa A.	andalone/Consolidated \$ articulars EQUITY AND LIABIL Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and sur
Pa A. 1.	EQUITY AND LIABILITIES Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and surplus (c) Money received against share w Sub-total-shareholder's funds Share applications money pendir Minority Interest Non-current liabilities (a) Long-term borrowings (b) Deferred tax liabilities (net) (c) Other long-term liabilities		30-09-2 Unaud 1,002 330 1,333	1.65 0.39 0.00 1.54 0.00	1,002.65 432.11 1,434.77 0.00 1.53 0.00	St Pa A.	andalone/Consolidated S EQUITY AND LIABIL Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and sur (c) Money received a Sub-total-sharehold Share applications Minority Interest Non-current liabiliti
Pa A. 1. 2. 3.	EQUITY AND LIABILITIES Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and surplus (c) Money received against share w Sub-total-shareholder's funds Share applications money pendi Minority Interest Non-current liabilities (a) Long-term borrowings (b) Deferred tax liabilities (net) (c) Other long-term liabilities Lont-term provisions		30-09-2 Unaud 1,002 330 1,333	2.65 0.39 0.00 1.54 0.00 0.00	1,002.65 432.11 <u>1,434.77</u> 0.00 1.53 0.00 0.00	St Pa A. 1. 2. 3.	andalone/Consolidated S rticulars EQUITY AND LIABIL Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and sur (c) Money received a Sub-total-sharehold Share applications Minority Interest Non-current liabiliti (a) Long-term borrow
Pa A. 1. 2. 3. 4.	EQUITY AND LIABILITIES Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and surplus (c) Money received against share w Sub-total-shareholder's funds Share applications money pendi Minority Interest Non-current liabilities (a) Long-term borrowings (b) Deferred tax liabilities (net) (c) Other long-term liabilities Lont-term provisions Sub-total - Non-current libilities		30-09-2 Unaud 1,002 330 1,333	1.65 0.39 0.00 1.54 0.00	1,002.65 432.11 1,434.77 0.00 1.53 0.00	St Pa A. 1. 2. 3.	andalone/Consolidated S EQUITY AND LIABIL Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and sur (c) Money received a Sub-total-sharehold Share applications Minority Interest Non-current liabiliti
Pa A. 1. 2. 3.	EQUITY AND LIABILITIES Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and surplus (c) Money received against share w Sub-total-shareholder's funds Share applications money pendi Minority Interest Non-current liabilities (a) Long-term borrowings (b) Deferred tax liabilities (net) (c) Other long-term liabilities Lont-term provisions		30-09-2 Unaud 1,002 330 1,333 () () () () () () () () () () () () ()	2.65 0.39 0.00 1.54 0.00 0.00	1,002.65 432.11 <u>1,434.77</u> 0.00 1.53 0.00 0.00	St Pa A. 1. 2. 3.	andalone/Consolidated S rticulars EQUITY AND LIABIL Shareholder's Funds (a) Share capital (b) Reserves and sur- (c) Money received a Sub-total-sharehold Share applications Minority Interest Non-current liabiliti (a) Long-term borrow (b) Deferred tax liabiliti

### SHARPLINE BROADCAST LIMITED (Formerly Known as Archit Holdings & Credits Limited) CIN: L22100DL1990PLC039464

gd. Off.: 37 Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi-110055 ill ID: Sharplinebroadcastlimited@gmail.com Website: www.sharplinebroadcast.in Statement of Un-audited Results for the Quarter Ended 30.09.2020

Particulars (Refer Notes Below)	Quarter ended (30/09/2020) (Unaudited)	Half year ending (30/09/2020) (Unaudited)	Corresponding 3 months ended in the previous year (30/09/2019) (Unaudited)
1. Total Income from Operations	88.46	108.37	220.19
<ol> <li>Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)</li> </ol>	5.19	(16.06)	1.89
<ol> <li>Net Profit/(Loss) for the period before tax/after Exceptional and/or Extraordinary items*)</li> </ol>	5.19	(16.06)	1.89
4. Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.19	(16.06)	0.97
<ol> <li>Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)]</li> </ol>		(16.06)	0.97
6 Equity Share Capital	1,150.00	1,150.00	1,150.00
<ol> <li>Earning Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)</li> <li>Basic :</li> <li>Diluted :</li> </ol>	0.05	-0.14 -0.14	0.01

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity

The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of footnote.

# Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable.

For SHARPLINE BROADCAST LIMITED

0.00

104.27

29.12

0.00

0.00

89.28 19.35

0.00

: 11.11.2020		V KUMAR JHA ation: Director NN : 02840583
SHARPLINE BROADCAS (Formerly Known as Archit Holdings & C CIN : L22100DL1990PLC039 Regd. Off.: 37 Second Floor, Rani Jhansi Road, W Email ID: Sharplinebroadcastlimited@	Credits Limited) 464 Iotia Khan, Delhi-	
ment of Assets and Liabilities as at 30.09.2020	Amount	(Rs. in Lakhs)
alone/Consolidated Statement of Assets and Liabilities	As at 30-09-2020 Unaudited	As at 31-03-2020 Audited
culars	1000000999900000	1. 1000 STATISTICS
QUITY AND LIABILITIES hareholder's Funds a) Share capital b) Reserves and surplus c) Money received against share warrants	1,150.00 -143.59	1,150.00 -127.54
ub-total-shareholder's funds	1,006.41	1,022.46
hare applications money pending allotment linority Interest on-current liabilities a) Long-term borrowings b) Deferred tax liabilities (net) c) Other long-term liabilities ont-term provisions	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ub-total - Non-current libilities	0.00	0.00
urrent liabilities		

a) Short-term borrowings

c) Other current liabilities

Date: 13th November, 2020 Place: New Delhi Reg No. IBBI/IPA-002/IP-N00310/2017-2018/10899	CIN : U74899DL1991PLC046774 Tel: 011-49487150 Fax: 011-49487197 Email: legal@herofincorp.com website: www.herofincorp.com	Place : New Delhi	Designation: Managing Director DIN : 06799570	Designation: D		
proof on or before <b>9th December, 2020</b> , to the liquidator at the address mentioned against item No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.	Date: 08.11.2020 Authorized Officer Place: New Delhi Hero FinCorp Limited CINER UZ4220001 100101 C042774 UTel: 011 40427150 Energy 011 40427103	*Applicable in the case of consolidated stateme Date : 11.11.2020	nt of assets and Liabilities For Sadhna Broadcast Limited Sd/- Name : Tajinder Kaur		onsolidated statement of assets and Liabilities For SHARPLINE BROADCAST LIMITED Sd/-	
The stakeholders of RGTL Industries Limited are hereby called upon to submit their claims with	U.P. in the name of Vedansh Builders Pvt. Ltd. iii) Land part of Khata No. 286 khasra no. 471, 474, 475 & 477, total area measuring 2.58466 hectare out of 2.8853 hectare situated in the area of village Loni. Pargana- Loni, Tehsil & Distt Ghaziabad, U.P.	Sub-total - Current assets Total-Assets	2.217.51 2.334.42 2.702.73 2.848.70	Sub-total - Current assets Total-Assets	925.36 1,139.80	916.65
Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal New Delhi Bench III has ordered the commencement of liquidation of the RGTL Industries Limited on 9th November, 2020 (Order received on 10th November, 2020).		<ul> <li>(d) Cash and cash equivalents</li> <li>(e) Short-term loans and advances</li> <li>(f) Other current assets</li> </ul>	8.43000 6.10 1,270.24 1,395.06 131.32 114.22	10 (d) Cash and cash equivalents 10 (d) Cash and cash equivalents 10 (e) Short-term loans and advances	98:84 9.59168 811.30 1.73	94.40 23.09 797.90 1.27
correspondence with the liquidator         Vihar-110076, New Delhi, India           Email ID: rgtl.liquidation@gmail.com           11         Last date for submission of claims         9th December, 2020	ii) Land part of Khasra no. 204, total area measuring 0.2910 hectare, situated in the area of village/Mauza-Rataul, Tehsil Khekra Distt- Baghpat	2. Current assets (a) Current investments (b) Inventories (c) Trade receivables	85.00 85.00 99.24 158.96 623.28 575.08	2. Current assets (a) Current investments (b) Inventories	0.00 3.89	0.00
Email ID: contactanshulgupta@gmail.com 10. Address and e-mail to be used for Address: B-573, II Floor, Pocket B, Sarita	Fatiabad Nithori, Pargana-Loni, Tehsil & Distt-Ghaziabad, U.P in the name of World Window Exim Ltd.	(f) Other non-current assets (g) Other financial Assets Sub-total - Non-current assets	213.91 243.86 92.90 87.80 485.22 514.28	(e) Long-term loans and advances (f) Other non-current assets Sub-total - Non-current assets	5.97 5.00 214.44	5.97 5.00 214.44
Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board     Towers, Lokhandwala Township, Kandivali East, Mumbai-400101, Maharashtra, India.	i) Land in khata no. 216, khet no.192, part of khasra no. 21, total area measuring 0.9860 hectare ward no. 101, situated in the area of village	(c) Non-current investments (d) Deferred tax assets (net) (e) Long-term loans and advances	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	<ul> <li>(b) Goodwill on consolidation*</li> <li>(c) Non-current investments</li> <li>(d) Deferred tax assets (net)</li> </ul>	0.00 203.47 0.00	0.00 203.47 0.00
insolvency professional acting as liquidator IBBI/IPA-002/IP-N00310/2017-2018/10899.	DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY/SECURED ASSETS IS AS UNDER:	(a) Fixed assets (b) Goodwill on consolidation*	178.41 182.62 0.00 0.00	1. Non-current assets (a) Fixed assets	0.00	0.00
8 Name and registration number of the Mr. Anshul Gupta	The attention of the Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.	B. ASSETS 1. Non-current assets		TOTAL-EQUITY AND LIABILITIES B. ASSETS	1,139.80	1,131.09
corporate debtor (Order received on 10th November, 2020)	The all a line of the Demonstration is in the day of the section o	TOTAL-EQUITY AND LIABILITIES	2.702.73 2.848.70	Sub-total - Current liabilities	133,39	108.63

1	165 km expressway with 5 integrated townships
	INDIAN MILESTONE IN INFRASTRUCTURE

Regd. Office: Sector -128, Noida-201304 (U.P.) CIN: L45203UP2007PLC033119

MITED

Ph: +91 (120) 4609000, 2470800 Fax: +91 (120) 4963122 Email: jpinfratech.investor@jalindia.co.in Website: www.jaypeeinfratech.com

# EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2020

(₹	in	lacs	except	EPS

				Standalon	e Results		-			Consolida	ted Results	c).	
S.No.	Particulars		Quarter Ended		Half Yea	r ended	Year Ended		Quarter Ender	1	Half Yea	r ended	Year Ended
3.NU.	Faiticulais	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	15,415	8,071	44,747	23,486	103,891	158,759	20,254	10,563	52,292	30,817	119,248	188,236
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional and/or extraordinary items)	(46,478)	(46,458)	(40,913)	(92,936)	(83,300)	(205,286)	(49,078)	(50,865)	(43,452)	(99,943)	(88,261)	(216,019)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items )	(46,478)	(46,458)	(40,913)	(92,936)	(83,300)	(205,286)	(49,078)	(50,865)	(43,452)	(99,943)	(88,261)	(216,019)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(46,478)	(46,458)	(40,913)	(92,936)	(83,300)	(214,276)	(49,078)	(50,865)	(43,452)	(99,943)	(88,261)	(225,009)
5	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}	(46,479)	(46,459)	(40,915)	(92,938)	(83,302)	(214,280)	(49,061)	(50,864)	(43,465)	(99,925)	(88,273)	(225,034)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	-	-	(236,017)	-	-		-	-	(282,378)
8	Earnings per Share (of ₹ 10/- each) for continuing and discontinued operations (not annualised):												
	- Basic (In ₹)	(3.35)	(3.34)	(2.95)	(6.69)	(6.00)	(15.43)	(3.53)	(3.66)	(3.13)	(7.20)	(6.35)	(16.20)
	- Diluted (In ₹)	(3.35)	(3.34)	(2.95)	(6.69)	(6.00)	(15.43)	(3.53)	(3.66)	(3.13)	(7.20)	(6.35)	(16.20)

Regd. Office : Village Dagori, Tehsil - Belha, Distt Bilaspur (C.G.) Email: rai\_nisl2007@yahoo.com,web: www.novaironsteel.com

Notes :

Sr. No.	Particulars	Quarter Ending	Year to date figures	Corresponding 3 months ended in the previous year
		30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019
1	Total income from operations	8692.55	8765.43	3297.41
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	317.94	(63.82)	(2341.35)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	317.94	(63.82)	(2341.35)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	317.94	(63.82)	(2341.35)
5.	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Ot- her Comprehensive Income (after tax)]	317.94	(63.82)	(2341.35)
6.	Equity Share Capital	3613.95	3613.95	3613.95
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(5834.27)	(5834.27)	(598.13)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted	0.88	(0.18)	(6.48)

and www.novaironsteel.com) and www.novaironsteel.com)

For and on behalf of Board of Directors For Nova Iron & Steel Ltd Sd/- (H.C.Verma) Place: New Dehi Director (DIN 00007681) Date: 11/11/2020

- The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter/half year ended 30th September, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Results for the guarter / half year ended on 30th September, 2020 are available on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.jaypeeinfratech. com). The items referred in the regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to National Stock Exchange of India Limited and BSE limited and also available on company's website.
- 2 The Standalone Results of the Company comprise of only one segment i.e. Yamuna Expressway Project, an integrated and indivisible project which inter-alia includes construction, operation and maintenance of Yamuna Expressway and rights for land development of 25 million sq. mtrs. along the expressway.
- 3 The Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) that was initiated against the Company on 09.08.2017 has since been concluded with approval of Resolution plan of NBCC (India) Limited (NBCC) (with certain modifications) by NCLT. Principal Bench, New Delhi vide its order dated 03.03.2020. The Successful Resolution Applicant (NBCC) preferred to file an appeal before the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal ("NCLAT") against the Hon'ble NCLT order dated 03.03.2020 against certain modifications made to its Resolution Plan. Hon'ble NCLAT in its order dated 22.04.2020 has inter alia stated that the approved Resolution Plan may be implemented with constituting a Interim Monitoring Committee (IMC). The Interim Resolution Professional (IRP) constituted an 'Interim Monitoring Committee (IMC)' "comprising of the 'Successful Resolution Applicant', i.e the Appellant and the three major Institutional Financial Creditors i.e IDBI bank Ltd., IIFCL and LIC" pursuant to the directions of Hon'ble NCLAT, till the disposal of above appeal to manage the affairs of the company.

However, the Resolution Plan of Successful Resolution Applicant (RA) though approved is not being implemented since the RA of the view that Hon'ble NCLAT order dated 22.04.2020 is not a direction to implement the Resolution Plan & the implementation shall take place post finalization of the appeals before Hon'ble Appellate Tribunal and / or Hon'ble Supreme Court of India. Hon'ble Supreme Court in the Civil Appeal Diary No 14741/2020 between Jaypee Kensington Boulevard Apartments Welfare Association & Ors Vs NBCC (India) Ltd & Ors vide its order dated 06.08.2020 has transferred all the pending appeals/cases bearing Nos. 486, 488, 475, 478, 480, 489, 506, 547, 544 and 630 of 2020 with NCLAT to itself i.e. to Supreme Court to avoid further delay in execution of scheme. Further, it has stayed the order of Hon'ble NCLAT dated 22.04.2020 till further order and in the meanwhile Hon'ble Supreme Court has ordered the IRP to manage the affairs of the company. Directions were again passed by the Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 10.09.2020 that since the entire resolution plan is pending consideration in these proceedings before this Court, it is appropriate that no coercive action be taken by any person/authority against the Company until further orders on the principle underlying Section 14 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Further, the arguments in aforementioned matter before Hon'ble Supreme Court are concluded on 08 October 2020 and judgement on same is reserved. Accordingly, the operations of the company are managed on going concern basis.

The total income from operations is inclusive of revenue from real estate (netted off delay rebate). During the guarter 4 Place : Noida ended on September 30, 2020, revenue from real estate is ₹ 636.25 lakh. Consequent upon approval of Resolution plan Date: 11th November, 2020 of NBCC by committee of creditors (COC) on 17.12.2019, the delay rebate is not being appropriated /adjusted while

raising demand to customers from January 2020 onwards. Since then the company is not providing delay rebate to customers.

- 5 CBRE South Asia Private Limited has carried out an assessment for cost to complete (comprising of civil cost, consent and approval cost, Internal Infrastructure Development Cost, Architect Fee and contingencies) as on 31.03.2019 for the real estate projects being developed by the Company at its land parcel 1 i.e. Noida and Land parcel 3 i.e. Mirzapur. The balance cost to complete as on 30.09.2020 is based upon the said assessment as reduced by the actual work done upto 30.09.2020.
- As the power of Board of Directors have been suspended, the above result have not been adopted by the Board of 6 Directors. However, the same have been reviewed and signed by IRP of the Company Shri Anuj Jain on November 11 2020 for filing with the stock exchange. The position of CFO had become vacant pursuant to resignation of former CFO on July 31, 2020.
- The Company has disclosed outstanding loans and interest in financial statements as per balances appearing in its Books of Accounts as per agreements with respective banks/financial institutions. Finance Cost is inclusive of Interest on debt for the guarter ending September 30, 2020 aggregating to ₹ 50,703.52 Lakh (Cumulative ₹ 6,55,109.81 Lakh as at September 30, 2020), which shall be restated on implementation of the Resolution Plan by the Successful Resolution Applicant.
- The Company reviewed the deferred tax assets/ liabilities on temporary differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purpose at reporting date. However, since the Company was under CIRP, there is virtual uncertainty of taxable profits in near future and availability of deferred tax assets to be set off. Accordingly, the deferred tax (net assets) for the reporting period i.e. April 1, 2020 to September 30, 2020 have not been considered
- The privately placed listed Non Convertible Debentures aggregating to ₹ 21195 Lakh as on 30th September 2020 are secured by way of exclusive charge /mortgage on 124.73 acres of land situated at Land parcel 4 i.e. Tappal, Dist. Aligarh, Uttar Pradesh.
- 10 The outbreak of corona virus (COVID-19) pandemic globally and in India is causing significant disturbance and slowdown of economic activity. Due to the lockdown announced by the Government, the Company's operations were suspended/ slowed down for most part of the half year ended September 30, 2020 and accordingly financial results for the quarter/ half year ended September 30, 2020 have been adversely impacted and are therefore not comparable with those for the previous periods. The operations and economic activities have gradually resumed with requisite precautions.
- 11 The figures for the guarter ended 30 September, 2020 represents the balancing figures between the reviewed figures of the half year ended 30 September, 2020 and the published year to date figures up to June 30, 2020.
- 12 The previous quarters/half year/year figures have been reworked/regrouped/rearranged wherever necessary to conform with those of current guarter/half year/year.

For and on behalf of Jaypee Infratech Limited

Anuj Jain (Interim Resolution Professional) IP Registration No. IBBI/IPA-001/ IP-P00142/2017-18/10306

financialexp.epapr.in







Half year

(in lakhs

# ऋण वसूली न्यायाधिकरण—।।।, दिल्ली के समक्ष चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की घारा 19 (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना के विषय में : ओ.ए. सं. 482/2019

#### विरूद्ध श्री राज शर्मा स्वामी मैसर्स राम एसोसिएट्स एवं अन्य बैंक ऑफ इंडिया आवेदक प्रतिवादीगण सेवा में

डी–1 श्री राज शर्मा पुत्र श्री सुख पाल शर्मा, स्वामी मैसर्स राम एसोसिएट्स 1/9544, बहल गली, बाबरपुर रोड, प्रताप पुरा, शाहदरा, दिल्ली—110032 अन्य पता :— सी—482, शिवाजी गली, छज्जूपुरा, शाहदरा, दिल्ली—110032

डी-2 श्रीमती रीना शर्मा पत्नी श्री राज शर्मा निवासी 1/9805, गली नंबर 1, वेस्ट रोहताश नगर, शाहदरा, दिल्ली–110032 अन्य पता :- 1/9544, बहल गली,

बाबरपुर रोड, प्रताप पुरा, शाहदरा, दिल्ली—110032 जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि

न्यायाधिकरण को संतोषभुद्र रूप से प्रह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 17–12–2020 को पूर्वा. 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान दें कि यदि आप जपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष जपस्थित नहीं होंगे वाद

की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। 19a महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण, समी मामलों की सुनवाई वीडिय

कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु :-(i) सभी अधिवक्ता / विवादी "Cisco Webex" ऐप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे ;

 रजिस्ट्रार / वसूली अधिकारी– । / तथा वसूली अधिकारी– । । के रूप में मामलों की सुनवा की अगली तिथि हेतु "Meeting ID" तथा "Password" अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल नामतः "drt.gov.in" पर सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत लेना होगा।

(iii) किसी कार्याधिक्य की स्थिति में, अधिवक्ता/विवादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 23748469 पर सम्पर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 05 नवम्बर, 2020 को दिया गया

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा सहायक निबन्धक, डीआरटी–।।।, नई दिल्ली

नई दिल्ली में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में (मूल न्याय क्षेत्र) कम्पनी अधिनियम, 1956 का मामला सीपी सं. 509/2011 में भारतेन्दु इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि. ( परिसमापनाधीन ) के मामले में तथा सी.पी. सं. 738/2015 हॉफलैण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के मामले में पणन मं 63 [नियम 148(1) देखें] अपने दावे सिद्ध करने हेतु क्रेडिटरों/डिपॉजिटरों/कामगारों को सूचना का विज्ञापन उपर्युक्त नामधारी कम्पनियों के क्रेडिटरों/डिपॉजिटरों/कामगारों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उन्हें उपर्युक्त नामधारी कम्पनी के विरुद्ध अपने सम्बन्धित डैट या दावे के प्रमाण 15.12.2020 तक या इससे पूर्व न्यायालय के परिसमापक के पास जमा करने हैं या डाक द्वारा इस प्रकार भेजे जायें कि आधिकारिक परिसमापक के पास अधिकतम उक्त तिथि तक पहुंच जायें, जिसके साथ कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 के निर्धारित प्रपत्र-66 में डैट या दावे के प्रमाण तथा अपने सम्बन्धित नाम, पते और डैट या देवे के विवरण तथा धारा 530 के तहत

किसी स्वामित्व प्राथमिकता जमा करनी होगी। कोई क्रेडिटर/डिपॉजिटर यदि उक्त समय–सीमा के भीतर प्रमाण के शपथपत्र जमा करने में असफल रहता है उसे उनके डैट प्रमाणित होने से पूर्व लाभांश के वितरण अथवा ऐसे वितरण की आपत्ति, जैसा मामला हो के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा

कोई क्रेडिटर/डिपॉजिटरी/कामगार यदि अपने प्रमाण आधिकारिक परिसमापक द्वारा वांछित के अनुसार लिखित में भेज चुका है उसे ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि एवं स्थान पर ऐसे डैट अथवा दावे की जांच के लिए उपस्थित होना होगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे अपने डैट या दावे के ऐसे प्रमाण प्रस्तत करने होंगे।

स्थान : नई दिल्ली	(डी.के. सिंह)
तिथि :, 2020	आधिकारिक परिसमापक
Productions, The Device Hard Methods and	दिल्ली उच्च न्यायालय,
	8वीं मंजिल, लोक नायक भवन,
	खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
डीएवीपी 07104/11/0002/2021	

# हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड कार्यालय : 34, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, कब्जा सूचना

### [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के अधिकृत प्राधिकारी, प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण (2002 क 54) (इसके बाद ''अधिनियम'' कहा जायेगा) के प्रावधानों के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में :

- मैसर्स वर्ल्ड विंडो इम्पेक्स इंडिया (प्रा.) (कर्जदार/सम्बोधिती सं. 1) इसके निदेशकों के माध्यम से, पंजीकृत पता : 75, खिड़की विलेज, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 श्री पीयष गोयल (निदेशक/जमानती/सम्बोधिती सं. 2)
- पुत्र श्री महेश कुमार गोयल, निवासी : डब्ल्यू-7ए/12, सैनिक फार्म्स, नई दिल्ली-110062 श्री नवीन अग्रवाल (निदेशक/सम्बोधिती सं. 3)
- निवासी : बी-12बी, प्रथम तल, कालकाजी, नई दिल्ली-110019
- श्री नवीन अग्रवाल (निदेशक एवं सीएफओ/सम्बोधिती सं. 4)
- 227. पॉकेट सी. एसएफएस फ्लैटस शेख सराय. फेज-I. नई दिल्ली-110017 श्री रमेश कुमार (निदेशक/सम्बोधिती सं. 5) निवासी : सी-502, जलवायु विहार, निकट
- एस.एम. शेट्टी स्कूल, पोवाई, मुम्बई-400076 श्री सुनील कुमार (निदेशक/सम्बोधिती सं. 6) निवासी : 504, डीईवी-20 अपार्टमेंट आजाद
- सोसाइटी, अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद-380015 श्री संदीप सोनी (निदेशक/सम्बोधिती सं. 7) निवासी : 315, बीएचए मिलेनियम अपार्टमेंट,
- बी 9/17 सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301 उत्तर प्रदेश श्री विजय मखीजा (निदेशक/सम्बोधिती सं. 8) निवासी : 75, खिड़की विलेज, मालवीय
- नगर, नई दिल्ली-110017, साथ ही : ए-40, दुग्गल कॉलोनी देवली रोड, खानपुर, नई दिल्ली-110062
- मैसर्स वेदांश बिल्डर्स प्रा.लि. (जमानती/बंधककर्ता/सम्बोधिती सं. 9) इसके निदेशक श्री संदीप सोनी के माध्यम से, कार्यालय : 75, खिड़की विलेज, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 0. मैसर्स वेदांश डेवलपर्स प्रा.लि. (जमानती/बंधककर्ता/सम्बोधिती सं. 10) इसके निदेशक श्र
- संजीव कुमार मिश्रा के माध्यम से, कार्यालय : 75 खिड़की विलेज, मालवीय नगर, नई
- दिल्ली-110017, साथ ही : ए-1931, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) 1. मैसर्स वर्ल्डस विंडो एग्जिम प्रा.लि. (जमानती/बंधककर्ता/सम्बोधिती सं. 11) इसके निदेशक श्री रुमिल कुमार के माध्यम से, कार्यालय : 75 खिड़की विलेज, मालवीय नगर, नई दिल्ली-
- 110017, साथ ही : ए-1931, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) से 26.06.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 4,77,59,276.63 (रुपये चार करोड़
- सतहत्तर लाख उनसठ हजार दो सौ छिहत्तर एवं तिरेसठ पैसे मात्र) तथा प्रयोज्य ब्याज एवं अन्य प्रभारों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 17.07.2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता तथा जनसामान्य कं एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे पटन शक्तियों वे उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 06 नवम्बर, 2020 को कब्जा कर लिया है

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-दे न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन 26.06.2019 तक रु. 4,77,59,276.63 (रुपये चार करोड़ सतहत्तर लाख उनसठ हजार दो सौ छिहत्तर एवं तिरेसठ पैसे मात्र) तथा प्रयोज्य ब्याज एवं अन्य प्रभारों के लिए एचएफसीएल के अभियोग व विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति∕प्रतिभुत आस्तियों का विवरण निम्नलिखित है (i) खाता सं. 216, खेत सं. 192, खसरा नं. 21 के भाग में भूमि, कुल क्षेत्रफल 0.9860 हेक्टेयर, वार्ड सं. 101, ग्राम फातियाबाद निठोरी, परगना-लोनी, तहसील एवं जिल गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित, वर्ल्ड विंडो एग्जिम लिमिटेड के नाम पर।

(ii) खसरा सं. 204 का भूमि भाग, कुल माप क्षेत्रफल 0.2910 हेक्टेयर, ग्राम/मौजा–रतौल तहसील खेकड़ा, जिला बागपत, उ.प्र. में स्थित, वेदांश बिल्डर्स प्रा.लि. के नाम पर। (iii) खाता नं. 286 खसरा नं. 471, 474, 475 तथा 477 का भूमि भाग, कुल माप क्षेत्रफल 2.8853 हेक्टेयर में से 2.58466 हेक्टेयर, ग्राम लोनी, परगना-लोनी, तहसील एवं जिल गाजियाबाद,

उ.प्र. म रस्थत।	
1.2020	अधिकृत प्राधिकारी
दिल्ली	हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड
U74899DL1991PLC046774   दूरभाष	: 011-49487150   फैक्स : 011-49487

ई-मेल : legal@herofincorp.com | वेबसाइट : www.herofincorp.com

Date : 11.11.2020

Place : New Delhi

Particulars	Quarter ended (30/09/2020)	Half year ending (30/09/2020)	(In Lakhs) Corresponding 3 months ended in the previous year (30/09/2019)
(Refer Notes Below)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1. Total Income from Operations 2. Net Profit/(Loss) for the period	571.42	824.55	827.83
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	76.12	(101.69)	46.30
<ol> <li>Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items*)</li> </ol>	76.12	(101.69)	46.30
4. Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional	2000.000		National States
and/or Extraordinary items) 5. Total Comprehensive Income	76.12	(101.69)	34.26
for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	76.12	(101.69)	34.26
6. Equity Share Capital	1,002.65	1,002.65	1,002.65
7. Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic : 2. Diluted :	0.76 0.76	(1.01) (1.01)	0.34 0.34
Notes			
<ol> <li>The above is an extract of the det Exchange under Regulation 33 Regulations, 2015. The full form websites of the Stock Exchange(</li> <li>The impact on net profit/loss, tota due to changes in accounting pc</li> <li># Exceptional and/or Extraordin accordance with Ind-AS Rules/At</li> </ol>	of the SEBI(Listing lat of the Quarterly I s) and the listed entii I comprehensive incoo licies shall be disclost ary items adjusted in S Rules, whichever is	and Other Disc Financial Result ty me or any other sed by means o n the Statement applicable.	closure Requirements) s are available on the relevant financial items f footnote.
		N	Sd/ Name : Tajinder Kau
Date : 11.11.2020		Designation	n: Managing Director DIN : 06799570

SADHNA BROADCAST LIMITED

CIN: L92100DL1994PLC059093

ad Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Email 10: cbnl.dehl@gmail.com, Website: www.sadi nt of Assets and Liabilities as at 30.09.0202 w/Consolidated Statement of Assets and Liabilities abroadcast.com Amount (Rs. in Lakhs As at As at 30-09-2020 31-03-2020 Upaudited Particulars A. | EQUITY AND LIABILITIES Shareholder's Funds a) Share capital b) Reserves and surplus 1,002.65 1,002.65 432.11 (c) neserves and supplies (c) Money received against share warrants Sub-total-shareholder's funds Share applications money pending allotment Minority Interest Non-current liabilities (a) Long-lame borrowings 1.333.05 ,434.77

	(b) Deferred tax liabilities (net)	1.54	1.53
	(c) Other long-term liabilities	0.00	0.00
	Lont-term provisions	0.00	0.00
-	Sub-total - Non-current libilities	1.54	1.53
	Current liabilities		1.00
•	(a) Short-term borrowings	399.05	249.74
	(b) Trade payables	795.00	813.18
	(c) Other current liabilities	172.66	330.84
	(d) Other Financial Liabilities	1.43	18.22
	(e) Short-term provision	0.00	0.00
	(f) Current Tax Liability (Net)	0.00	0.41
	Sub-total - Current liabilities	1.368.14	1.412.40
	TOTAL-EQUITY AND LIABILITIES	2.702.73	2.848.70
•	ASSETS		
	Non-current assets		
	(a) Fixed assets	178.41	182.62
	(b) Goodwill on consolidation*	0.00	0.00
	(c) Non-current investments	0.00	0.00
	(d) Deferred tax assets (net)	0.00	0.00
	(e) Long-term loans and advances	0.00	0.00
	(f) Other non-current assets	213.91	243.86
	(g) Other financial Assets	92.90	87.80
	Sub-total - Non-current assets	485.22	514.28
	Current assets	102803 Martin	21271212
	(a) Current investments	85.00	85.00
	(b) Inventories	99.24	158.96
	(c) Trade receivables	623.28	575.08
	(d) Cash and cash equivalents	8.43000	6.10
	(e) Short-term loans and advances	1,270.24	1,395.06
	(f) Other current assets	131.32	114.22
_	Sub-total - Current assets	2,217.51	2,334.42
	Total-Assets	2,702,73	2.848.70

# Name : Tajinder Kaur Date : 11.11.2020 Designation: Managing Director DIN : 06799570

#### Corresponding nonths ended in ended 30/09/2020) ending (30/09/2020) the previous year (30/09/2019) (Refer Notes Below) 1. Total Income from Operations 2. Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extensional income) audited) 88.46 5.19 (Unaudited) 108.37 (16.06) 220.19 Extraordinary items\*) 3. Net Profit/(Loss) for the period befind tax(after Exceptional and/or (16.06 1.89 5.19 Extraordinary items\*) 4. Net Profit/(Loss) for the period after 5.19 (16.06) 0.97 tax(after Except Extraordinary items) 5. Total Comprehensive Income for th (16.06) 0.97 5.19 period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax) 6. Equity Share Capital 7. Earning Per Share (of Rs.10/- each) 1,150.00 1,150.00 1,150.00 (for continuing and discontin 0.05 0.01 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity Websites of the stock Exchange(s) and the inserve terms The impact on net profit(hoss, total comprehensive income or any other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of footnote. # Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable. For SHARPLINE BROADCAST LIMITED Date : 11.11.2020 Name - CAN IEEV KIIMAT

SHARPLINE BROADCAST LIMITED

CIN: L22100DL1990PLC039464 Regd. Off.: 37 Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi-110055

Statement of Un-audited Results for the Quarter Ended 30.09.2020

Quarte

(Formerly Known as Archit Holdings & Credits Limited

Email ID: Sharplinebroadcastlimited@gmail.com Website: www.sharp

Part I Particulars

Basic : Diluted

Statem

Particu A. EQ

0.00

0.00

te : 11.11.2020		ation: Director NN : 02840583
SHARPLINE BROADCA (Formerly Known as Archit Holdings & CIN : L22100DL1990PLC033 Regd. Off.: 37 Second Floor, Rani Jhansi Road, Email ID: Sharplinebroadcastlimited	Credits Limited) 9464 Motia Khan, Deihi	
atement of Assets and Liabilities as at 30.09.2020		(Rs. in Lakhs)
indalone/Consolidated Statement of Assets and Liabilities	As at 30-09-2020 Unaudited	As at 31-03-2020 Audited
rticulars		
EQUITY AND LIABILITIES Shareholde's Funds (a) Share capital (b) Reserves and surplus (c) Money received against share warrants	1,150.00 -143.59	1,150.00 -127.54
Sub-total-shareholder's funds	1,006.41	1,022.46
Share applications money pending allotment Minority interest Non-current liabilities (a) Long-term borrowings (b) Deferred tay liabilities (act)	0.00	0.00

	(b) Deferred tax liabilities (net)	0.00	0.00
	(c) Other long-term liabilities	0.00	0.00
	Lont-term provisions	0.00	0.00
	Sub-total - Non-current libilities	0.00	0.00
5.	Current liabilities		
	(a) Short-term borrowings	0.00	0.00
	(b) Trade payables	104.27	89.28
	(c) Other current liabilities	29.12	19.35
	(d) Short-term provision	0.00	0.00
	Sub-total - Current liabilities	133.39	108.63
_	TOTAL-EQUITY AND LIABILITIES	1,139.80	1,131.09
B.	ASSETS		
1.	Non-current assets	000000000	10.000-0007
	(a) Fixed assets	0.00	0.00
	(b) Goodwill on consolidation*	0.00	0.00
	(c) Non-current investments	203.47	203.47
	(d) Deferred tax assets (net)	0.00	0.00
	(e) Long-term loans and advances	5.97	5.97
	(f) Other non-current assets	5.00	5.00
	Sub-total - Non-current assets	214.44	214.44
2.	Current assets		102-00210
	(a) Current investments	0.00	0.00
	(b) Inventories	3.89	0.00
	(c) Trade receivables	98.84	94.40
	(d) Cash and cash equivalents	9.59168	23.09
	(e) Short-term loans and advances	811.30	797.90
	(f) Other current assets	1.73	1.27
	Sub-total - Current assets	925.36	916.65
	Total-Assets	1,139.80	1,131.09

Applicable in the case of consolidated statement of assets and Liabilities For SHARPLINE BROADCAST LIMITED

Name : SANJEEV KUMAR JHA

**Designation: Direct** DIN : 02840583

### \$ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई विल्ली-110002 कुक्ता सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [(परिशिष्ट-IV) नियम 8(1) देखें]

तिथि : 08.1

स्थान : नई सीआईएन

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लेखाओं के अधीन वर्णित राशि को कथित सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर पूनर्भूगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कथित कर्जदार राशि का भूगतान करने में असफल रहें इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम–9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। विशेषक कर्जदारों और आम जनता को सचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार और उस पर आगे ब्याज के भुगतान के अधीन होगा । जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है उसका विवरण निम्नानुसार है:

				स्टैंडए	लॉन					समे	कित		
क्रम	<u></u>	Ŕ	समाप्त तिमाही	t	समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त	छमाही	समाप्त वष
सं.	विवरण	30.9.2020	30.6.2020	30.9.2019	30.9.2020	30.9.2019	31.3.2020	30.9.2020	30.6.2020	30.9.2019	30.9.2020	30.9.2019	31.3.2020
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(i)	प्रचालनों से कुल आय	208.36	114.54	710.08	322.90	1,334.09	2,936.88	208.39	114.69	713.15	323.08	1,339.71	2,954.2
(ii)	कराधान के पूर्व वर्ष/अवधि हेतु लाभ	(1,140.31)	(1,125.76)	(504.85)	(2,266.07)	(1,838.22)	(3,105.09)	(1,129.30	(1,112.95)	(470.97)	(2,242.25)	(1,819.18)	(3,036.91
(iii)	कर पश्चात वर्ष/अवधि हेतु लाभ	(1,140.31)	(1,125.76)	(504.85)	(2,266.07)	(1,838.22)	(3,105.09)	(1,129.30	(1,112.95)	(470.97)	(2,242.25)	(1,819.18)	(3,036.91
(iv)	कुल अन्य व्यापक आय	0.48	0.36	0.94	0.84	0.10	1.43	(0.09)	0.09	0.75	-	(0.96)	0.3
	कुल व्यापक आय	100 100 100	(1,125.40)	(503.91)	(2,265.23)	(1,838.12)	(3,103.66)	(1,129.39)	(1,112.86)	(470.22)	(2,242.25)	(1,820.14)	(3,036.56
(vi)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.5
(vii)	आरक्षिति (गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर)	N/A	N/A	N/A	14,458.60	17,989.38	16,723.83	N/A	N/A	N/A	14,375.60	17,834.24	16,617.80
(viii)	आय प्रति शेयर बेसिक डाइल्यूटेड	(0.61) (0.61)	(0.60) (0.60)	(0.27) (0.27)	(1.22) (1.22)	(0.99) (0.99)			(0.60) (0.60)	(0.25) (0.25)			(1.63 (1.63

टेली.: 0120-2516495, फैक्स: 0120-2516440

CIN. No: L45101DL1996PLC315772; ईमेल: ntbcl@ntbcl.com,

वेबसाईटः www.ntbcl.com

नोएडा टोल ब्रिज कंपनीं लिमिटेड पंजी. कार्याः टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091

		अचल			का रि	वेवरण				
5. I.	लोन.खाता नं., बांध कर्जवार एवं गारटर का नाम	क/चार्ज्ड सं	पत्तियों	का वि		ग सूचना ही तिथि	कब्जा तिर्गि		(2) सूचना व बकाया व	
		सम्पत्ति म.नं. 19,	सड़क सं.	. 14 का सम			11.11.2		रु.	
	मोहित मदान, सुश्री निधि मदान, श्री उ	ग्राम शकरपुर, उ	आबादी ईर	ट पंजाबी	बाग, नई			8,	44,57,558.0	4 एवं उस
	राज कुमार मदान एवं मैसर्स	दिल्ली-110026	में स्थित	तथा कल	क्षेत्रफल			पर	ब्याज तथा	अन्य प्रभार
	9	652.84 वर्ग गज			0.0000000000000000000000000000000000000			5.0		
	<ul> <li>Construction of the state of th</li></ul>	सीमाएं :								
		उत्तर : प्लॉट सं.	17							
		दक्षिण : ईस्ट एवेग्	न्यू राड							
		पूर्वः फेसिंग		•						
	t	पश्चिम ः प्लॉट सं	न. 19 क <del>ा</del> '	शष भाग						
-	णेयों का ध्यान सुरक्षित सम	पत्ति को छुर	ड़ाने के	लिए उप	लब्ध स	मय के संव	र्भ मे	ं अधिन्	नेयम के	अनुच्छेद
	3) के उप-अनुच्छेर्व (8) के 1 व्याक्तः 11.11.2020	प्रावधाना का	आर उ	भाकाषत	ाकया जा	ता ह।		பி	कृत आ	ोकारी
	यानः नई दिल्ली				Ū	लआईर	री हा			
-		मोत्स्य		ப்பி	यल्स	ਕਿ				
		रन्पपट्र	न प	गमास	भएस	ात्य. विदय फे		। उन्हें ने	निन्न्नी_11	0005
	गंनीकन कार्यालय, गी २/1	a TTOTT 35								
	पंजीकृत कार्यालयः सी-2∕1									
	N: L51109DL1985PL	C317450,	ईमेलः	spectro	um0124	@gmail	.con	1, टेली.	: 011-4	7035262
		C317450,	ईमेलः	spectro	um0124	@gmail	.con	1, टेली.	: 011-4 का विव	7035262 रण
	N: L51109DL1985PL	C317450,	ईमेलः	spectri के लिये <sub>समाप्त 3</sub>	um0124 स्टैंडएलॉ समाप्त पूर्व	@gmail न अनंके8ि पूर्व वर्ष 30.9.	.con सत प	1, टेली. रिणाामों <sub>समाप्त</sub>	: 011-4 का विव ( राधि समाप्त	7035262 रणा गलाखों में समाप्त पूर्व
']	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त ति	C317450,	ईमेलः	spectri के लिये समाप्त 3 महीने	um0124 स्टैंडएलॉ समाप्त पूर्व 3 महीने	@gmail न अनंदेतेहि पूर्व वर्ष 30.9. में समाप्त	.con सत प	1, टेली. रिपाामों <sup>समाप्त छमाही</sup>	: 011-4 का विव ( राशि समाप्त छमाही	7035262 स्पा ग लाखों में समाप्त पूर्व वर्ष
']	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त ति <sub>विवरण</sub>	C317450, तेमाही तथा र	ईमेलः छमाही व	spectro के लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020	um0124 स्टैंडएलॉ समाप्त पूर्व 3 महीने 30.6.2020	@gmail न अनंदेनेहि पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३	.con सता प <sup>2019</sup> महीने (	1, टेली. रिणाामों समाप्त छमाही 30.9.2020)	: 011-4 <b>का विव</b> ( राषि समाप्त छमाही ( 30.9.2019 )	7035262 २८८१ ग लाखों में समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020
	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त वि विवरण (नीचे टिप्पणी देव	C317450, तेमाही तथा र	ईमेलः छमाही व	spectru के लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 (अनंकेक्षित)	um0124 स्टेंडएलॉ अ महीने 30.6.2020 (अनेकेक्षित)	@gmail न अनंदेतेहि पूर्व वर्ष 30.9. में समाप्त	.con सत प <sup>2019</sup> महीने ( 1) (	1, टेली. रिपाामों समाप्त छमाही 30.9.2020) अनंकेक्षित)	: 011-4 दिता दिदिदा ( राशि समापत छमाही ( 30.9.2019 ) ( अनंकेक्षित )	7035262 रपा ग लाखों में समाप्त पूर्व वर्ष ( 31.3.2020 ( अंकेक्षित )
	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त ति विवरण (नीचे टिप्पणी देव (क) प्रचालनों से राजस्व	C317450, तेमाही तथा र	ईमेलः छमाही व	spectru देठ लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 ( अनंकेक्षित ) 0.00	um0124 स्टेंडएलॉ अ महीने 30.6.2020 (अनंकेक्षित) 0.00	@gmail न अनंदेनेहि पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३	.com सता प 2019 महीने ( 1) ( 0.00	1, टेली. रिणाामों समाप्त छमाही 30.9.2020) अनंकेक्षित) 0.00	: 011-4 <b>टना विव्य</b> ( राहि समाप्त छमाही ( 30.9.2019 ) ( अनंकेक्षित ) 0.00	7035262 रणा ग लाखों में समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020 (अंकेक्षित) 0.00
	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त ति विवरण (नीचे टिप्पणी देत (क) प्रचालनों से राजस्य (क) अन्य आप	C317450, तेमाही तथा र	ईमेलः छमाही व	spectru टेंग लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 ( अनेकेक्षित ) 0.00 0.70	समाप्त पूर्व 3 महीने 30.6.2020 (अनंकेक्षित) 0.00 0.32	@gmail न अनंदेनेहि पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३	.com सता प 2019 महीने ( ) ( 0.00 0.70	1, टेली. रिणाामों समाप्त छमाही 30.9.2020) अनंकेक्षित) 0.00 1.03	: 011-4 <b>टना विव्य</b> ( राहि समाप्त छमाही ( 30.9.2019 ) ( अनंकेक्षित ) 0.00 1.50	7035262 रणा ग लाखों में समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020 ( अंकेक्षित ) 0.00 2.90
	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त ति विवरण (नीचे टिप्पणी देव (क) प्रचालनों से राजस्व	C317450, तेमाही तथा र	ईमेलः छमाही व	spectru देठ लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 ( अनंकेक्षित ) 0.00	um0124 स्टेंडएलॉ अ महीने 30.6.2020 (अनंकेक्षित) 0.00	@gmail न अनंदेनेहि पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३	.com सता प 2019 महीने ( 1) ( 0.00	1, टेली. रिणाामों समाप्त छमाही 30.9.2020) अनंकेक्षित) 0.00	: 011-4 <b>टना विव्य</b> ( राहि समाप्त छमाही ( 30.9.2019 ) ( अनंकेक्षित ) 0.00	7035262 रणा ग लाखों में समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020 ( अंकेक्षित ) 0.00 2.90
	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त दि विवरण (नीचे टिप्पणी देर (क) प्रचालनों से राजस्य (क) प्रचालनों से राजस्य (क) अन्य आप कुल राजस्य (क+ख) खर्वे (क) कर्मचारी लाभ व्यय	C317450, तेमाही तथा र	ईमेलः छमाही व	spectru टेंग लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 ( अनेकेक्षित ) 0.00 0.70	समाप्त पूर्व 3 महीने 30.6.2020 (अनंकेक्षित) 0.00 0.32	@gmail न अनंदेनेहि पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३	.com सता प 2019 महीने ( ) ( 0.00 0.70	1, टेली. रिणाामों समाप्त छमाही 30.9.2020) अनंकेक्षित) 0.00 1.03	: 011-4 <b>टना विव्य</b> ( राहि समाप्त छमाही ( 30.9.2019 ) ( अनंकेक्षित ) 0.00 1.50	7035262 रण म लाखों में समाप्त पूर्व (31.3.2020 ( अकेक्षित ) 0.0 2.9 2.9
r	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त वि विवरण (मैचे टिप्पणी देव (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अन्य जाय कुल राजस्व (क+ख) खर्च (क) कर्मचारी लाभ व्यय (ख) अन्य खर्च	C317450, तेमाही तथा व	ईमेलः छमाही व	spectru के लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 ( अनंकेश्वित ) 0.00 0.70 0.70 0.00 0.64	<b>समाप्त पूर्व</b> <b>र मेंहएलॉॉ</b> 3 महीने 30.6.2020 ( अनकेशित ) 0.00 0.32 0.32 0.02 0.00 0.63	@gmail न अनंदेनेहि पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३	2019 महीने ( ) ( 0.00 0.70 0.70 0.70	1, टेली. रिपाामों उ	: 011-4 टना विद्य ( राग्ति समापत छमाही ( अनवेकशित) 0.00 1.50 1.50 0.00 1.45	7035262 २८७१ त लाखों में समाप्त पूर्व वर्ष ( 31.3.2020 ( अकेक्षित ) 0.0 2.9 2.9 0.0 0.2.9
r	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त वि विवरण (नीचे टिप्पणी देर (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व क्षेत्र ग्रान्स्व) खर्म (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) अन्व खर्म कृत्व खर्म (क+ख)	C317450, तेमाही तथा व खे)	ईमेलः छमाही व	spectru के लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 (अनकेक्षित) 0.00 0.70 0.70 0.00 0.64 0.64	<b>समाप्त पूर्व</b> <b>रदेंडएलॉ</b> <u>अ महीने</u> <u>30.6.2020</u> (अनेकेक्षित) 0.02 0.32 0.32 0.032 0.032	@gmail न अनंदेठीक्षे पूर्व वर्ष ३०.९ में समाप्त तत्स्थानीय ३ ( अनंकेश्वित	2019 महीने ( ) ( 0.00 0.70 0.70 0.72 0.72	1, टेली. रिपाामों अमकेक्षित ) 0.00 1.03 1.03 0.00 1.27 1.27	: 011-4' <b>टठा टिटा</b> ( पारि समाप्त छमाही ( अनवेकेश्विन) 0.00 1.50 0.00 1.45 1.45	7035262 201 म लाखों में समापत पूर्व ( 31.3.2020 ( अकेक्षित ) 0.00 2.91 2.91 0.00 2.91 2.92 0.00 2.92 2.92
r	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त दि विवरण (नीचे टिप्पणी दे (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अन्य आय कुल राजस्व (क+ख) खर्व (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) कर्मचारी लाभ व्यय	C317450, तेमाही तथा व खे)	ईमेलः छमाही व	spectru रेने लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 (अनवेनेकिसित) 0.00 0.70 0.70 0.00 0.64 0.64 0.64	am0124 स्टेंडएलॉ अ महीने 30.6.2020 (अनेकेक्षित) 0.00 0.32 0.32 0.00 0.63 0.63 0.63 0.63	@gmail न अनंदेठीक्षे पूर्व वर्ष ३०.९ में समाप्त तत्स्थानीय ३ ( अनंकेश्वित	2019 महीने ( ) 0.00 0.70 0.70 0.72 0.72 0.72	1, टेली. रिप्पाामों छमाही 30.9.2020) अनंकेक्षित) 0.00 1.03 1.03 0.00 1.27 1.27 1.27 (0.24)	: 011-4' टरा टिव ( रारि समापत उम्मचेरेबित ( अनचेरेबित 0.00 1.50 1.45 1.45 1.45 0.04	7035262 <b>२२२</b> समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020 (3रीकेक्षित) 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
;]] r	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त वि विवरण (नीचे टिप्पणी देर (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व क्षेत्र ग्रान्स्व) खर्म (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) अन्व खर्म कृत्व खर्म (क+ख)	C317450, तेमाही तथा व खे)	ईमेलः छमाही व	spectru के लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 (अनकेक्षित) 0.00 0.70 0.70 0.00 0.64 0.64	<b>समाप्त पूर्व</b> <b>रदेंडएलॉ</b> <u>अ महीने</u> <u>30.6.2020</u> (अनेकेक्षित) 0.02 0.32 0.32 0.032 0.032	@gmail न अनंदेर्ने मूर्य वर्ष ३०.२. में समाप्त तत्स्थानीय ३ (अनंकेश्वित ((	2019 महीने ( ) ( 0.00 0.70 0.70 0.72 0.72	1, टेली. रिपाामों अमकेक्षित ) 0.00 1.03 1.03 0.00 1.27 1.27	: 011-4' <b>टठा टिटा</b> ( पारि समाप्त छमाही ( अनवेकेश्विन) 0.00 1.50 0.00 1.45 1.45	7035262 <u>२</u> स्पार्थ समाप्त पूर्व (31.3.2020 ( अकेसिल ) 0.00 2.99 0.00 2.99 0.00 2.99 0.00 0.99 0.00 0.99 0.00 0.99 0.00
;]] r	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त वि विवरण (मैचे टिप्पणी देव (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अन्व जाव कुल राजस्व (क+ख) खर्च (क) अर्मचारी लाभ व्यय (क) अन्व खर्च कुल खर्च (क+ख) विशिष्ट/आसाधारण आय/(खर्च)	C317450, तेमाही तथा व खे)	ईमेलः छमाही व	spectru के लिये समाप्त 3 सहीने 30.9.2020 ( अनंकेक्षित ) 0.00 0.70 0.70 0.00 0.64 0.64 0.66 0.00	<b>समाप्त पूर्व</b> <b>उ महीने</b> <b>3 महीने</b> <b>3 उ.6.2020</b> ( <b>अनवेकेहिल</b> ) 0.000 0.32 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.0	@gmail न अनंदेर्ने मूर्य वर्ष ३०.२. में समाप्त तत्स्थानीय ३ (अनंकेश्वित ((	2019 महीने (. )) ( 0.00 0.70 0.70 0.70 0.72 0.72 0.72 0.72	1, टेली. रिप्पाामों छमाही 30.9.2020) अनकेक्षित) 0.00 1.03 1.03 0.00 1.27 1.27 (0.24) 0.00	: 011-4' <u>द्र)</u> दिव ( रारि समापत छमाही ( 30.9.2019 ) ( अनवेकवित) 1.50 0.00 1.50 0.00 1.55 0.00 1.45 1.45 0.04 0.04	7035262 <u>२</u> स्पार्थ समाप्त पूर्व (31.3.2020 ( अकेसिल ) 0.00 2.99 0.00 2.99 0.00 2.99 0.00 0.99 0.00 0.99 0.00 0.99 0.00
r	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त दि विवरण (नीचे टिप्पणी देव (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अन्व आग कुल राजस्व (क+ख) खर्मे (क) अन्य खर्मे कुल खर्मे (क+ख) बिरिष्ट/असाधारण भदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विरिष्ट/असाधारण भदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विरिष्ट/असाधारण आय/(खर्मे) कर से पूर्व लाभ/(हानि) (3-4) कर व्यय	C317450, तेमाही तथा व खे)	ईमेलः छमाही व	spectro के लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 ( अनेकेश्वित ) 0.00 0.70 0.70 0.00 0.64 0.64 0.06 0.00 0.00	समाज पूर्व 3 महीने 30.6.2020 (अनकेहिल) 0.02 0.32 0.02 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63	@gmail न अनंदेर्ने मूर्य वर्ष ३०.२. में समाप्त तत्स्थानीय ३ (अनंकेश्वित ((	I.COII           2019         -           refinit (         -           0.00         -           0.70         -           0.00         -           0.72         -           0.02         -           0.02         -           0.00         -           0.02         -           0.00         -	1, टेली. रिणाामों छनाही 30.9.2020) अनंकेक्षित) 0.00 1.03 1.03 0.00 1.27 1.27 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00	: 011-4' <u>का विव</u> ( तरी समापत छमाही ( 30.9.2019 ) ( अमकेक्षित ) 0.00 1.50 0.00 1.45 1.45 0.04 0.00 0.00 0.00	7035262 रण त्र लाखों में समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020 (अकेसिल) 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
r]]	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त वि विवरण (नीचे टिप्पणी देर (क) प्रचालनों से राजस्व (ख) अन्य आय कुल राजस्व (क+ख) खर्में (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) अन्य खर्म कुल खर्च (क+ख) विशिष्ट असाधायण मदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट असाधायण आय/(खर्चे) कर से पूर्व लाभ/(ज्ञानि) (3-4) कर व्यम चालू कर आस्वगित कर	C317450, तेमाही तथा द खे) भ (1-2)	ईमेलः छमाही व	spectro के लिये समापत 3 महीने 30.9.2020 (अनकेश्विन) 0.00 0.70 0.00 0.64 0.00 0	<b>समाख पूर्व</b> <b>उ महीने</b> <u>3 पहीने</u> <u>3 0.6.2020</u> (अन्वेकेश्विन) 0.020 0.32 0.32 0.33 0.000 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.6	ि gmail न अनंदेर्राहे पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३ (अनंवेकीक्षत (()	Image: constraint of the second sec	<ul> <li>त. टेली.</li> <li>रिणाामों</li> <li>ख्याही</li> <li>३०.९.२०२०)</li> <li>अनंकेश्वित)</li> <li>0.00</li> <li>1.03</li> <li>1.03</li> <li>0.00</li> <li>1.27</li> <li>1.27</li> <li>(0.24)</li> <li>0.00</li> <li>(0.24)</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> </ul>	: 011-4' टा दिव ( रारि समाप्व छमाही ( 30.9.2019) ( अनेकेखित) 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 1.45 1.45 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04	7035262 रण म लाखों में समापल पूर्व वर्ष (31.3.2020 (अकेसित) 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.2,9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त दि विवरण (नीचे टिप्पणी देर (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अन्य आय कुल राजस्व (क+ख) खर्षे (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क्रिश्ट)आसाधारण मदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट)आसाधारण भदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट)आसाधारण भदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट)आसाधारण भदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट)आसाधारण आय/(छाने) कर से पूर्व लाभ/(हानि) (3-4) कर व्यय चालू कर आस्यगित कर	C317450, तेमाही तथा द खे) भ (1-2)	ईमेलः छमाही व	spectru रेग लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 (जनकेक्षित) 0.000 0.700 0.000 0.644 0.64 0.664 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.00000000	समाज प्रदे समाज पूर्व 3 महीने 30.6.2020 (अनकेसित) 0.032 0.032 0.000 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000	ि gmail न अनंदेर्राहे पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३ (अनंवेकीक्षत (()	Image: constraint of the second sec	a, टेली. रिणाामों समाप्त छमाही 30.9.2020) अनंकेक्षित) 0.000 1.27 1.27 (0.24) 0.000 (0.24) 0.000 (0.24)	: 011-4'	7035262 र पा समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020 (3रेकेसित) 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
r	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त वि विवरण (नीचे टिप्पणी देत (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अन्व आग कुल राजस्व (क+ख) खर्चे (क) अन्य खर्चे कुल खर्चे (क+ख) बिशिष्ट/आसाणाएण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/आसाणाएण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/आसाणाएण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/आसाणाएण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/आसाणारण मदी से पूर्व प्रचलक्त प्रचालनों से आवध्य के लिये लाभ/(हानि) अनवरत प्रचालनों से लाभ/(हानि)	C317450, तेमाही तथा द खे) भ (1-2)	ईमेलः छमाही व	spectro के लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 ( अनेकेश्वित ) 0.00 0.70 0.00 0.64 0.64 0.66 0.00 0.66 0.00 0.0	समाज पूर्व 3 महीने 30.6.2020 (अनकेहिल) 0.00 0.32 0.32 0.00 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63	ि gmail न अनंदेर्राहे पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३ (अनंवेकीक्षत (()	2019         (1)           महीने (1)         (1)           (1)	a, टेली. रिणाामों अग्नेकेश्वित) 30.9.2020) अनेकेश्वित) 0.00 1.03 1.03 0.00 1.27 1.27 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00	: 011-4' <u>का विव</u> ( पारि समाप्त छमाही ( अगकेक्षित) ( अगकेक्षित) 0.00 1.50 0.00 1.45 1.45 0.04 0.00	7035262 र पा त लाखों में समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020 (313.2020 (313.2020 (313.2020 0.0 0.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
r	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त दि विवरण (नीचे टिप्पणी देर (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अन्य आय कुल राजस्व (क+ख) खर्षे (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क्रिश्ट)आसाधारण मदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट)आसाधारण भदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट)आसाधारण भदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट)आसाधारण भदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट)आसाधारण आय/(छाने) कर से पूर्व लाभ/(हानि) (3-4) कर व्यय चालू कर आस्यगित कर	C317450, तेमाही तथा द खे) भ (1-2) नि) (5-6)	ईमेलः छमाही व	spectru रेग लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 (जनकेक्षित) 0.000 0.700 0.000 0.644 0.64 0.664 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.00000000	समाज प्रदे समाज पूर्व 3 महीने 30.6.2020 (अनकेसित) 0.032 0.032 0.000 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000	ि gmail न अनंदेर्राहे पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३ (अनंवेकीक्षत (()	Image: constraint of the second sec	a, टेली. रिणाामों समाप्त छमाही 30.9.2020) अनंकेक्षित) 0.000 1.27 1.27 (0.24) 0.000 (0.24) 0.000 (0.24)	: 011-4'	7035262 रण त लाखों में समापल पूर्व वर्ष (31.3.2020 (अकेसित) 0.0 2.9 2.9 0.0 0.9 2.9 0.0 0.0 0.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
[] [	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त दि विवरण (नीचे टिप्पणी देत (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अनव आग कुल राजस्व (क+ख) खर्चे (क) अन्य खर्चे कुल खर्चे (क+ख) खरिष्टि/आसाधारण आयं (खर्चे) कर स्वय विशिष्ट/आसाधारण आयं (खर्चे) कर स्वय चालु कर आस्थगित कर आस्थगित कर आस्थगित कर आन्धरात कर द्यम वाल्व के त्यम	C317450, तेमाही तथा र खे) भ (1-2) नि) (5-6) न्यत)	ईमेलः छमाही व	spectro के लिये समापत 3 महीने 30.9.2020 (अनकेश्विन) 0.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00 0.64 0.64 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.000 0.00	<b>समाख पूर्ध</b> <b>उ महीने</b> <u>3 महीने</u> <u>30.6.2020</u> (अनेकेसिल) 0.020 0.322 0.322 0.323 0.030 0.000 (0.30) 0.000 (0.30) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	ि gmail न अनंदेर्राहे पूर्व वर्ष ३०.९. में समाप्त तत्स्थानीय ३ ( अनंकेश्वित (( ((	cont         cont           2019         ()           refina         ()           ()         ()	a, टेली. रिणाामों छणाही ३०.९.२०२०) अनंकेश्वित) 0.00 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 1.27 1.27 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 0.00	: 011-4' टा दिव समाप्व छमाही (30.9.2019) (अनेकेखित) 0.00 1.550 1.550 1.550 0.00 0.45 1.45 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.04 0.05 0.04 0.05 0.5 0.	7035262 र पा समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020 (378)
[] r	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त दि विवरण (नीचे टिप्पणी देव (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) कर्मचारी लाभ व्य विशिष्ट/आधायारण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/आधायारण जाय/(छाने) कर से पूर्व लाभ/(छानि) (3-4) कर व्यय चालू कर आस्यगित कर अवस्वद्ध प्रचालनों से लाभ/(छानि) अवरुद्ध प्रचालनों से लाभ/(छानि) (कर से पश अवधि के लिये लाभ/(छानि) (कर से पश अवधि के लिये लाभ/(छानि) (7+10)	C317450, तेमाही तथा द खे) भ (1-2) नि) (5-6) प्यात) का सम मुल्य)	ईमेलः छमाही	spectru के लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 (अर्मकेक्षित) 0.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.64 0.06 0.00	<b>ममाव पूर्व</b> <b>उ महीने</b> <b>3 कहीने</b> <b>3 कही</b> <b>3 कह</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b></b>	ि gmail न अनंदेर्ने हिं मूर्य वर्ष ३०.श. में समाप्त तत्स्थानीन ३ ( अनंकेक्षित (( (( ((	cont           2019         ()           weihigh         ()           ()         ()	<ul> <li>त. टेली.</li> <li>रिणाामों</li> <li>समाप्त छण्मही</li> <li>३०,२,२०२०)</li> <li>अनकेक्षित)</li> <li>०.00</li> <li>1.03</li> <li>0.00</li> <li>1.27</li> <li>1.27</li> <li>(0.24)</li> <li>0.00</li> <li>(0.24)</li> <li>0.00</li> <li>(0.24)</li> <li>0.00</li> <li>(0.24)</li> <li>0.00</li> <li>(0.24)</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> </ul>	: 011-4	7035262 र पा त्र लाखों में समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020 (313.2020 (313.2020 (313.2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त दि बिवरण (नीचे टिप्पणी देर (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अग्व आय कुल राजस्व (क+ख) खर्चे (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) कर्मचारी लाभ व्यय विशिष्ट/आसाधारण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/असाधारण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/आसाधारण मदी से पूर्व प्रवे लाभ/(हानि) (3-4) कर व्यय आरव्यि कि लिये लाभ/(हानि) (कर से पर अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर से पर अवधि के लिये लाभ/(हानि) (7-10) प्रदत्त इत्तिवरी सेयर पूंजी (र. 10/- प्रति शेयर:	C317450, तेमाही तथा द खे) भ (1-2) नि) (5-6) प्यात) का सम मुल्य)	ईमेलः छमाही	spectro के लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 ( अनेकेश्वित ) 0.00 0.70 0.00 0.64 0.64 0.66 0.00 0.66 0.00 0.0	am0124 स्टेंडएलॉ समाज पूर्व 30.6.2020 (अनकेसिन) 0.00 0.32 0.32 0.00 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63	ि gmail न अनंदेर्ने हिं मूर्य वर्ष ३०.श. में समाप्त तत्स्थानीन ३ ( अनंकेक्षित (( (( ((	COTI           2019         4           vel3n         6           vel3n         6           0.00         0.70           0.70         0           0.72         0.72           0.72         0.72           0.00         0.02           0.00         0.00           0.22         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00	a, टेली. रिणाामों अग्नेकेश्वित) अनेकेश्वित) 0.00 1.03 1.03 0.00 1.27 1.27 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	: 011-4' 271 विव ( तरी समापत छमाही ( 30.9.2019 ) ( अमकेक्षित ) 0.00 1.50 0.00 1.45 1.45 0.04 0.000 0.00	7035262 रा समाप्ल पूर्व वर्ष (31.3.2020 (अर्वेगवित) 0.0 2.9 2.9 0.0 0.0 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Ŧ	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त वि विवरण (नीचे टिप्पणी दे (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अन्व जाय कुल राजस्व (क+ख) विशिष्ट/आसापारण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/आसापारण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/आसापारण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/आसापारण मदी से पूर्व प्रवालनों कर अत्यस्य प्रचालनों से आवधि के लिये लाभ/(हानि) अत्यस्त प्रचालनों से आवधि के लिये लाभ/(हानि) अत्यस्त प्रचालनों से आवधि के लिये लाभ/(हानि) अत्यस्त प्रचालनों से लाभ/(हानि) अत्यस्त प्रचालनों के लर व्यय आवयि के लिये लाभ/(हानि) (7+10) प्रदत्त इत्रिवेटी सेयर पूंजी (रु. 10/- प्रति शेयर पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुजर्मुल्याक आय प्रति शेयर 5. 10/- प्रति का	C317450, तेमाही तथा द खे) भ (1-2) नि) (5-6) प्यात) का सम मुल्य)	ईमेलः छमाही	spectru के लिये समाप्त 3 महीने 30.9.2020 (अनवेकेश्वित ) 0.00 0.70 0.70 0.00 0.64 0.64 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.0	समाव पूर्व ३ महीने ३ वहीने ३ वहीने २ वहीने ३ वहीने २ वहाने २ वहा २ वहाने २ वहाने २ वहाने २ वहाने २ वहाने २ वहाने २	द gmail न अनंदेर्ने हिं मूर्य वर्ष ३०.श. में समाप्त तत्स्थानीन ३ ( अनंकेक्षित (( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	RCOIL         Refine         Refine <threfine< th="">         Refine         <threfine< th=""> <threfine< th="">         Refine</threfine<></threfine<></threfine<>	a, टेली. रिणाामों अग्नेकेक्षित) 30.9.2020) अनेकेक्षित) 0.00 1.03 1.03 0.00 1.27 1.27 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	: 011-4' 27 विव समाय (गा समाप्त (उ.9.2019) (उन्गवेतिवन) 0.00 1.50 0.00 1.45 1.45 0.04 0.00 0.	7035262 र पा त त त त त त त त त त त त त
H	N: L51109DL1985PL0 30.9.2020 को समाप्त दि बिवरण (नीचे टिप्पणी देर (क) प्रचालनों से राजस्व (क) प्रचालनों से राजस्व (क) अग्व आय कुल राजस्व (क+ख) खर्चे (क) कर्मचारी लाभ व्यय (क) कर्मचारी लाभ व्यय विशिष्ट/आसाधारण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/असाधारण मदी से पूर्व प्रचालनों से लाभ विशिष्ट/आसाधारण मदी से पूर्व प्रवे लाभ/(हानि) (3-4) कर व्यय आरव्यि कि लिये लाभ/(हानि) (कर से पर अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर से पर अवधि के लिये लाभ/(हानि) (7-10) प्रदत्त इत्तिवरी सेयर पूंजी (र. 10/- प्रति शेयर:	C317450, तेमाही तथा द खे) भ (1-2) नि) (5-6) प्यात) का सम मुल्य)	ईमेलः छमाही	spectro के लिये समापत 3 महीने 30.9,2020 (अननेकेश्विन) 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.64 0.64 0.64 0.66 0.00 0.06 0.000 0.00	a m0124 स्टेंडएलॉ अ महीने 30.6.2020 (अनकेसिल) 0.020 0.030 0.030 0.000 (0.30) 0.000 (0.30) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	ि gmail न अनंदेर्ने में समाप तत्स्थानीय ३ (अनंकेक्षित (( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	COII           2019         4           ugh7         (           ugh7         (           0.00         (           0.70         (           0.70         (           0.70         (           0.70         (           0.72         (           0.	a, टेली. रिणागमें छिमाही 30.9.2020) अनकेखित) 0.00 1.03 1.03 0.00 1.27 1.27 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00 (0.24) 0.00	: 011-4' 271 दिव समापत जमही (30.9.2019) (अनकेशिवन) 0.00 1.50 0.00 1.45 1.45 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.05 0.	7035262 २००१ गलाखों में समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2020)

उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 नवम्बर, 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।

कम्पनी ने संशोधित रेट्रोस्पेक्षिटव पद्धति का उपयोग करते हुए कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड ए एस 116 ''लीजेज'' अपनाई है। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के तुलनात्मक ऑकड़े तदनुसार समायोजित नहीं किये गये हैं। इसे अपनाने का अवधि के लिये लाभ तथा आय प्रति शेयर पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

जनहित लिटिगेशन (रियायत अनुबंध की वैधता को चुनौती देने तथा रियायत अनुबंध को रद्द कराने के लिये) पर अपने फैसले तिथि 26 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कम्पनी को शुल्क की लेवी तथा संग्रहण संबंधित दो विशिष्ट प्रावधानों को गैर-प्रचालनात्मक ठहराते हुए उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था लेकिन रियायत अनुबंध को निरस्त करने से इंकार कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप नोएडा-दिल्ली टोल रोड के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण 26 अक्टूबर, 2016 से निलम्बित रहा है जिसके लिये उक्त फैसले पर अंतरिम स्थगन लगाने के लिये भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल किया गया है।

11 नवम्बर, 2016 को अपने अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी की सहायता मांगी कि क्या रियायत अनुबंध की शतों के अनुसार परियोजना की कुल लाग कम्पनी द्वारा वसूल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। 14 सितम्बर, 2018 को अपनी अंतिम सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुहरबंत लिफाफे में रखी जाये।

यह एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिये अभी भी लम्बित है। कंपनी ने नोएडा को भी अधिसुचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायाल का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानून में परिवर्तन' का गठन करता है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किया ताकि उसे उसी रूप में विधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में स्थापित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व में था। चूंकि, नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएडा के पास विवाचन की एक सूचना भेजी है।

विवाचन अधिकरण का गठन कर लिया गया है तथा कंपनी एवं नोएडा दोनों ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। फिर, नोएडा विवाचन कार्यवाही की मैन्टनैबिलिटी पर धारा 16 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया है लिये आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 द्वारा विवाचन अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया

विवाचन अधिकरण के आदेश तिथि 10 अगरत, 2018 को चुनौती देने के लिये नोएडा आर्बीट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1961 की धारा 34 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया था जिस पर नोएडा को कोई राहत दिये बिना 31 जनवरी, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा कर दिया गया।

विवाचन कार्यवाही पर स्थगन लगाने के लिये नोएडा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी निर्देशों के लिये एक आवेदन दाखिल किया है। 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाचन कार्यवाही पर स्थगन लगाने का निर्देश दिया कम्पनी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित आर्बीट्रल कार्यवाही को हटाने की माँग करते हुए ३१ जनवरी, 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है। मामले को सुनवाई हेतु २१ सितम्बर, 2020 तथा ०५ अक्टूबर, 2020 को लिया गया जिस तिथि पर इसे 18 नवम्बर, 2020 को अन्तिम निस्तारण हेतु पोस्ट किया गया था।

विधिक ओपिनियन के आधार पर तथा कंसेशन एग्रीमेंट (क्षतिपूर्ति एवं अन्य रिकोर्स से सम्बन्धित) के प्रावधानों के आधार पर कम्पनी आश्वस्त है कि अमूर्त तथा अन्य आरितयों का निहित मूल्य दुर्बल नहीं हैं। कम्पनी परियोजना आस्तियों के रखरखाव सहित कंसेशन एग्रीमेंट के अनुसार अपने दायित्व को पूर्ण करती रहेगी।

कम्पनी को निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत 27 दिसम्बर, 2019 को आयकर विभाग से निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें कर विभाग के साथ ऐतिहासिक विवाद पर आधारित र 357 करोड़ तथा रु. 383.48 करोड़ की राशि की माँग की गयी है जो कि भविष्य में वसूली जाने वाली निर्दिष्ट आयों के एरियर, भूमि के मूल्यांकन तथा अन्य वसूलियों के अतिरिक्त है। कम्पनी ने प्रथम स्तर के अपीलीय प्राधिकरण के पास एक अपील दाखिल की है।

गत वर्ष के दौरान कम्पनी को 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी(ए) से एक आदेश प्राप्त हुआ और सीआईटी(ए) आदेश के अनुसार एओ ने सीआईटी(ए) के अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते हुए निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के परिप्रेक्ष्य मं अनुगामी आदेश भी पारित कर दिये हैं और कर की माँग रु. 10,893.30 करोड़ तक बढ़ा दी है। माँग की वृद्धि प्राथमिक तौर पर भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कम्पनी ने स्थगन आवेदन के साथ एक अपील आयकर अपीलीय अधिकरण ( आईटीएटी के पास दाखिल किया है। मामले की सुनवाई, आईटीएटी द्वारा 19 दिसम्बर, 2018, 2 जनवरी, 2019 को की गयी और सुनवाई के अन्त में 6 फरवरी, 2019 को आईटीएटी ने एनसीएलएटी आदेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के आधार पर आईएलएण्डएफएर तथा एनटीबीसीएल सहित इसकी ग्रुप कम्पनियों के विरुद्ध सभी लेनदारों को मोरेटोरियम स्वीकृत करते हुए यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश सहित मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

नवम्बर, 2018 के दौरान सीआईटी (ए), नोएडा ने ए.वाई. 2006-07 से 2014-15 के लिये दंड आदेश पारित किया तथा उसके आधार पर गणना अधिकारी, दिल्ली ने दिसम्बर, 2018 के दौरान रु. 10,893.30 की राशि का दंड लगाया। कम्पनी ने 1 जनवरी, 2019 को आईटीएटी में एक अपील दाखिल की है। इस मामले पर 29 मार्च, 2019 तथा 03 मई, 2019 को आईटीएटी द्वारा सुनवाई की गई जिसे यथा रिथति बनाये रखने के निर्देश के साथ अनिष्टिचत काल के लिये मामले को स्थगित कर दिया कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा 21 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलएटी) के पास दाखिल शपथपत्र के सन्दर्भ में 15 अक्टूबर, 2018 को कट–ऑफ तिथि (''कट–ऑफ तिथि'') प्रस्तावित की गयी। माननीय एनसीएलएट

ने अपने आदेश दिनांक 12 मार्च, 2020 के माध्यम से इसके संशोधनों सहित नये बोर्ड द्वारा प्रस्तुत संशोधित समाधान फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। कथित आदेश में माननीय एनसीएलएटी ने कम्पनी की समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए 15 अक्टूबर 2018 को कट-ऑफ तिथि के रूप में मंजूरी भी दी। तदनुसार कम्पनी ने 15 अक्टूबर, 2018 (''कट-ऑफ तिथि'') से प्रभावी अपने समस्त ऋण तथा उधारियों पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त किया है।

28 सितंबर, 2018 को नोएडा द्वारा कम्पनी को मांग का एक रिट सर्व किया गया क्योंकि डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा साइड में विज्ञापन से राजस्व के संदर्भ में कंपनी से रु. 3.69 करोड़ की मांग उठाई गई। कंपनी ने नेएडा से मांग के इस रिट को आस्थगित रखने का अनुरोध किया क्योंकि नोएडा द्वारा इस मामले को विवाचन में दिया गया है तथा इतना ही नहीं एनसीएलएटी आदेश तिथि 15 अक्तूबर, 2018 को देखते हुए स्वीकृत मोरैटोरियम के कारण कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

दिसम्बर, 2018 तथा अप्रैल, 2019 के दौरान कम्पनी ने लाइसैंस शुल्क के एरिअर के लिये रु. 2.34 करोड़ तथा रु. 2.42 करोड़ की अतिरिक्त मांग प्राप्त की। कम्पनी ने नोएडा से इस मांग को आस्थगित रखने का अनुरोध किया है, क्योंकि इस मांमलं को नोएडा द्वारा आर्बीट्रेशन में भेजा गया है

नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी जिसे 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, भारत सरकार तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार 16 मार्च, 2020 से समस्त वाणिज्यि तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए तथा ''लॉक-डाउन'' एवं कर्फ्यू लगाने और राज्य से बाहर तथा भीतर यात्रा करने तथा कार्यालयों को बन्द करने के लिए विभिन्न उपाय/दिशा/निर्देश/अदिश जारी कर रही हैं।

प्रारम्भ में 25 मार्च, 2020 से 21 दिनों के लिए लगाये गये राष्ट्रव्यापी पूर्ण लॉकडाउन तथा दुबारा 31 मई, 2020 तक बढ़ाये जाने के कारण और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से सीमित गतिविधियों को धीरे–धीरे पुनः खोलने के कारण प्रतिबन्धों एवं परिणामी प्रभावों से 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त छमाही के दौरान प्रचालनों से आय (विज्ञापन हेतु स्पेस तथा कार्यालय स्थल से भाड़े के रूप में आय) पर प्रभाव पड़ा है। यद्यपि कम्पनी इन अनिश्चित परिस्थितियों से उबरने का प्रयास कर रही है, प्रबन्धन का विश्वास है कि कम्पनी के ऐतिहासिक निष्पादन तथा तरलता को देखते हुए कम्पनी कोविड–19 से जुड़े जोखिमों को कम करने में समर्थ हो सकेगी। हालांकि कम्पनी उन भावी आर्थिक स्थितियों में किसी परिवर्तन पर लगातार निगरानी रख रही है जो इसके व्यापार तथा वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाल सकती है।

कंपनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड-वार जानकारी का विवरण लागू नहीं है।

जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्समूहीकृत/ पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

10. उपरोक्त सेबी (सूचीवन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटों क्रमशः www.ntbcl.com, www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

स्थान : नोएडा

DIN: 05346810 स्थानः नई दिल्ली तिथि: 12.11.2020 पताः 323, तरुण एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-11003-

अवरुद्ध प्रचालनों, यदि कोई हो, से लाभ/ हानि जो उपरोक्त में शामिल हैं, उसके विवरणों के साथ पृथक रूप से दर्शाए जाएंगे।

. यह कम्पनी केवल एक व्यवसाय खंड में संलग्न है।

4. ईपीएस की गणना आईसीएआई द्वारा जारी एएस-20 के अनुसार की गई है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर निदेशक

तिथि : 12 नवम्बर, 2020

. स्पेक्ट्रम कॉमर्सियल्स लिमिटेड के लि

 $\mathbf{e}$ 

( योगेश कंसल